



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



प्रेस नोट थाना मक्खनपुर दिनांक 25-09-2021 जनपद फिरोजाबाद ।

थाना मक्खनपुर पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर चोर /लुटेरों को किया गिरफ्तार कब्जे से चोरी की दो अपाचे व पल्सर मोटरसाइकिल, लूटे हुए 25 मोबाइल व 11 मोबाइल पार्ट (कुल 36 मोबाइल) बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा चोर/ लुटेरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना मक्खनपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.09.2021 को समय 21.15 बजे अभियुक्तगण 1. टिन्कू पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम सूरजपुर थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद 2. राजकुमार पुत्र पुत्तूलाल निवासी ग्राम अदमपुर थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद 3. संजू उर्फ गटुआ पुत्र जगदीश निवासी नवादा नई बस्ती बैंक के पीछे कस्बा व थाना मक्खनपुर व हाल पता राजाराम का बाग के पास मक्खनपुर थाने के सामने थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद को मय 04 अदद मोबाइल फोन व 02 अदद मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ करने पर बताया कि चोरी व लूट के मोबाइल डबरई पर अक्षय कुमार की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, जो अभी खुली हुई होगी। उसे हम लोगों ने चोरी व लूट के मोबाइल उसी को बिक्री किये हैं। आप ले चले तो उस पर आपको मोबाइल जरूर मिलेंगे। तीनों की निशादेही पर अभियुक्त अक्षय कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी फाटक पार कनैटा थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद को मय चोरी व लूट के खरीदे गये 21 अदद मोबाइल फोन व 11 मोबाइल पार्ट्स (कुल 32) बरामद हुए। बताया कि साहब लालच में आकर सस्ते दाम में खरीदकर जैसा ग्राहक मिल जाये फायदा लेकर बेच देते हैं। बरामदा मोबाइल व मोटर साइकिल के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 254/2021 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व 411/414/420 भादवि पंजीकृत है। पूछताछ में अभियुक्तगणों ने बताया कि हम लोग जनपद फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी तक जाकर मोबाइल छीनकर/चोरी करके लाते हैं तथा घटना में चोरी की अपाचे मोटर साइकिल का ज्यादा प्रयोग करते रहे हैं। इसके बारे में तीनों अभियुक्तों ने बताया कि यह मोटर साइकिल वर्ष 2017 में थाना सिकन्दरा जनपद आगरा से चोरी करके लाये थे तथा इसको घटना में नम्बर बदल बदलकर प्रयोग कर रहे थे। पूछताछ में अभियुक्त राजकुमार ने बताया कि मैंने व बौबी पुत्र सतीश चन्द्र नट निवासी ठार वाजिदपुर थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद के साथ इसी पल्सर मोटर साइकिल से करीब 20 दिन पहले मक्खनपुर में बिल्टीगढ चौराहे के पास शिकोहाबाद की तरफ जा रहे ओटो में बैठी एक लडकी जिसने मोबाइल फोन हाथ में पकड रखा था। उसे छीन ले गये थे। मोबाइल रेडमी नीले रंग का था। जो मोबाइल मेरे साथी बौबी के पास है। बताया था कि बेचकर आपको आधे पैसे दे देंगे। लेकिन तब तक बौबी थाना शिकोहाबाद से चोरी में जेल चला गया है। हम लोग अपने शौक मौज मस्ती के लिए मोबाइल चोरी/छीन लेते हैं तथा कम दामों में अक्षय को बिक्री कर देते थे। जो मोबाइल हमने अक्षय से बरामद कराये हैं। हम लोगो के द्वारा ही चोरी छीने हुए मोबाइल हैं तथा थाना रसूलपुर से जानकारी की गयी तो बताया कि आसफाबाद से चोरी किये गये मोबाइल का मु0अ0सं0 338/2021 धारा 379/411 भादवि थाना रसूलपुर पंजीकृत है तथा थाना मटसैना में मु0अ0सं0 215/2021 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत है। शेष मोबाइलों को ट्रेस कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। सभी जनमानस से अनुरोध है कि पुराने व नये मोबाइल खरीदते समय मोबाइल का बिल अवश्य प्राप्त करें। यदि बिना बिल के मोबाइल बरामद होता है तो नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जायेगा।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1-टिन्कू पुत्र विजेन्द्र निवासी सूरजपुर थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद ।
- 2-राजकुमार पुत्र पुत्तूलाल निवासी ग्राम अदमपुर थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद ।
- 3-संजू उर्फ गटुआ पुत्र जगदीश निवासी राजाराम के बाग के पास मक्खनपुर थाने के सामने थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद
- 4-अक्षय कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी फाटक पार कनैटा थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद ।

बरामदगी का विवरण:-

1. 25 अदद मोबाइल फोन व 11 अदद मोबाइल फोन के पार्ट्स (कुल 36 मोबाइल)
2. 01 अदद मोटर साइकिल अपाचे रंग सफेद UP32GA1221 फर्जी नम्बर प्लेट- UP80DN7132
3. 01 अदद मोटर साइकिल पल्सर रंग काला नं0 UP83W7257

अभियुक्त टिन्कू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 338/2021 धारा 379/411 भादवि थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद
2. मु0अ0सं0 215/2021 धारा 379/411 भादवि थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद
3. मु0अ0सं0 254/2021 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व 411/414/420 भादवि थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद
4. मु0अ0सं0 142/2021 धारा 379/411 भादवि थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद
5. मु0अ0सं0 277/17 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्दरा जनपद आगरा

अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 338/2021 धारा 379/411 भादवि थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद
2. मु0अ0सं0 215/2021 धारा 379/411 भादवि थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद
3. मु0अ0सं0 254/2021 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व 411/414/420 भादवि थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद
4. मु0अ0सं0 277/17 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्दरा जनपद आगरा

अभियुक्त संजू उर्फ गटुआ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 338/2021 धारा 379/411 भादवि थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद
2. मु0अ0सं0 215/2021 धारा 379/411 भादवि थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद
3. मु0अ0सं0 254/2021 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व 411/414/420 भादवि थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद
- 4-मु0अ0सं0 277/17 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्दरा जनपद आगरा

अभियुक्त अक्षय कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 254/2021 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व 411/414/420 भादवि थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री महेश सिंह थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।
2. व0उ0नि0 मोमराज सिंह थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।
3. उ0नि0 प्रवीन कुमार थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।
4. उ0नि0 प्रशान्त माठा थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।
5. का0 1177 हरवीर सिंह थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।
6. का0 1155 आशुतोष कुमार थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।
7. का0 470 सुनील कुमार थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।
8. का0 1066 प्रवेन्द्र कुमार थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।